

PIIL/SEC/BSE:NSE/35:2023-24 July 23, 2023

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25<sup>th</sup> Floor,

Dalal Street, **Mumbai – 400 001** 

Code No.523642

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai – 400 051.** 

Code No. PIIND

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we hereby enclose the copies of the Newspaper advertisements published on **July 23, 2023** in **Financial Express** (National daily newspaper - All India English Edition) and **Pratahkal** (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur, informing, inter alia, about the following:

- 1. 76<sup>th</sup> Annual General Meeting ("e-AGM") of the members of PI Industries Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, August 17, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM');
- 2. Manner of dispatching electronic copies of the Notice of the 76<sup>th</sup> e-AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23; and
- 3. Manner for casting vote through remote e-voting and registering/updating e-mail address and/or bank account details.

Further, the aforesaid advertisements are also accessible and made available on the Company's website i.e., <a href="https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Annual-General-Meeting">https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Annual-General-Meeting</a>.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For PI Industries Limited

Sonal Tiwari Company Secretary

Encl: As above

**FE SUNDAY** 

U.P. CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD.
9-A, Rana Pratap Marg, Lucknow. Tel No. (0522) 2612949, (0522) 2628310, Fax: (0522) 2627994, Website: www.upsugarfed.org

Short term e-tender Notice

Online e-bids are invited for the sale of different kind of Alcohol (SDS, ENA, Matured Sprit) from Cooperative Distilleries of U.P. to reputed Distilleries of India, bonafide registered users to whom license have been issued by the Excise Department and approved traders holding valid license of Excise department of the concerned State. E-bid can be uploaded upto 6.55 P.M. on 16.08.2023 and Technical bid will be opened at 11.30 AM on and Financial bid at 3.30 PM on 17.08.2023. E-bid minimum EMD is Rs 100000/- EMD is variable if guoted quantity is above 01.00 lac BL. The rate at which EMD shall increase will be Rs 1.80 per BL. Total quantity for sale of Alcohol is approximately 45,72,756.50 Lac BL and matured sprit quantity is 1 lac BL and Tender cost Rs. 2000/- + 18% GST (Non refundable). The details for submission of e- bids will be available on the e-tender PORTAL http://etender.up.nic.in and also on Federation website www.upsugarfed.org since 22.07.2023 at 6.55 PM. The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or all the e-bids without assigning any reason. The decision of the Managing Director shall be final and binding MANAGING DIRECTOR UPSUGARFED/GM(AT)/74/3C DATE: 22.07.2023

# FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED Corporate Identity Number: L85110PB1989PLC045948

Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali - 160062, Punjab Tel.: +91-172-5096001, Fax: +91-172-5096002

Email Id: secretarial.malar@malarhospitals.in, Website: www.fortismalar.com

CORRIGENDUM

NOTICE OF 32" ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON 31" JULY, 2023

Dear Shareholders

This has reference to the Notice dated May 19, 2023 convening 32<sup>™</sup> Annual General Meeting ("Notice of AGM") of Fortis Malar Hospitals Limited ("Company") to be held on Monday, July 31, 2023 at 2:00 PM through video conferencing/other audio-visual means.

The Company has received the resignation letter dated July 20, 2023 from Dr. Nithya Ramamurthy resigning from the position of Directorship of the Company with effect from July 20, 2023. Therefore, the proposal for re-appointment of Dr. Nithya Ramamurthy is withdrawn in consequence to her resignation from the Directorship of the Company.

Accordingly, the ordinary resolution under item no. 2 of the Notice of AGM "To appoint a Director in place of Dr. Nithya Ramamurthy (DIN: 00255343), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment as a Director" is withdrawn and the Notice of AGM shall stand modified to this extent.

This Corrigendum to the Notice of AGM shall form an integral part of the Notice of 32" Annual General Meeting notice dated May 19, 2023. Accordingly, Registrar and Share Transfer Agent, Depositories shareholders, agencies appointed for e-Voting, and other concerned authorities and persons are requested to take note of the withdrawal of the resolution item no. 2 along with the disclosure made in the said Notice of AGM.

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Corrigendum is being published on July 23, 2023 in Newspapers viz Financial Express and Rozana Spokesman.

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and

The Corrigendum will be available on the website of the Company https://www.fortismalar.com/investor-relations/investorcatdetails/ annual-reports1 is being sent to the Stock Exchange and the Shareholders.

Yours sincerely,

For Fortis Malar Hospitals Limited Sandeep Singh

Company Secretary Membership No.: F9877

# PI Industries Limited CIN: L24211RJ1946PLC000469 **Regd Office:** Udaisagar Road, Udaipur–313 001 (Rajasthan)

Date : July 22, 2023

Place : Gurugram

**Corporate Office:** 5th Floor, Vipul Square, B-Block, Sushant Lok, Phase–I, Gurugram–122 009 (Haryana) Email-ID: investor@piind.com, Website: www.piindustries.com

**Phone:** 0294 6651100, 0124 6790000, **Fax:** 0294 2491946 NOTICE OF 76th ANNUAL GENERAL MEETING, TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) Members may note that the 76th Annual General Meeting ("e-AGM") of the members of

PI Industries Limited ('the Company') will be held on Thursday, August 17, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at the venue in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circular issued on December 28, 2022 and SEBI Circular issued on January 05, 2023 in this regard and other connected circulars, to transact the business that will be set forth in the Notice of the

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the 76th e-AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23, will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Ltd., ('KFin')/Depository Participants ('DPs'). The physical copy of the Notice along with the Integrated Annual Report, shall be dispatched solely to those Members at their registered address who explicitly request for the physical

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on May 18, 2023, has recommended a final dividend of ₹5.50 per equity share. The record date for the purpose of final dividend is August 11, 2023. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing e-AGM, will be paid on or before September 15, 2023. The dividend shall be paid electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

The Notice of e-AGM will be made available on the following websites for the convenience of the members:

1. Company's website: https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Annual-

**General-Meeting** 2. Website of Stock Exchanges: i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National

Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

3. KFin website: https://evoting.kfintech.com/ Manner for casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the e-AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system at the e-AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the e-AGM and remote e- voting/e-voting has been provided in the Notice of e-AGM.

Manner of registering KYC including bank details for receiving dividend electronically, if declared in the AGM:

Physical Holding Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address and/ or bank account details for receiving dividends directly in their bank accounts through electronic clearing service (ECS) or any other means are requested to submit Form ISR-1 duly filled and signed along with self-attested copy of the PAN card and such other documents as prescribed in the Form,

to register or update: **a.** PAN, KYC details and nomination;

b. Particulars of bank account or change in their address, for receiving dividend directly in their account through electronic mode or through physical instrument; and

c. E-mail address to receive communication through electronic means, including Annual Report and Notice and other communications. The said Form is available on the Company's website at

https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Forms and on the website of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\_download

hrd. Members have an option to submit the duly filled Form ISR-1 in person at any of the branches of KFin, details of which are available at https://www.kfintech.com/contact-us/ or submit e-signed form online along with requisite documents by accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx# or physical forms can be sent through post at following address:

KFin Technologies Ltd. Unit: PI Industries Ltd.

Dematerialized

Date : July 22,2023

financialexp.epa

holding

Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32.

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500 032 Members holding shares in dematerialised mode are requested to

update their aforesaid details with their Depository Participant (DP) to avoid delay in receiving the dividend. In case of any guery and/or grievance, members are requested to write to einward.ris@kfintech.com (KFin Website) or contact Ms. Shobha Anand at shobha.anand@kfintech.com or call KFin's toll free No. 1-800-309-4001. Members may

also write an email to Company at investor@piind.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued

from time to time.

For PI Industries Limited **Sonal Tiwari** Place : Gurgaon

**Company Secretary** 

M. No. A16638

KET Kerala Financial Corporation

HO: Vellayambalam, Thiruvananthapuram- 695033 Phone: 2737716, e-mail: recovery@kfc.org

**Invitation for Expression of Interest** for Assignment of Debt

4.00		0		
Name of the Debtor	Reserve Price/ Value of Assignment	EMD		
Trivandrum International Health Service Ltd	Rs.13.41 crore	10% of RP		
	nission of Requisite ation Certificate, ne Prospective Bidder			
Last Date for Submis Bid Opening & Verific	14.08.2023, 5 PM 16.08.2023, 5 PM			
The above assignment	ent is subject to ter ffer document publish	ms and conditions		

(etenders.kerala.gov.in). The Bid shall be submitted as per Bid Order Quantity on Govt. e-Procurement portal. TVM Chairman & Managing Director 24.07.2023

(kfc.org) and e-Procurement portal Govt, of Kerala

Seki EKI ENERGY SERVICES LIMITED CIN: L74200MP2011PLC025904 . BSE Scrip Code - EKI | 543284

Registered Address: Plot 48, Scheme 78 Part-2, Vijay Nagar, Indore-452 010, M.P., India Corporate Address: 903, B-1, 9th Floor, NRK Business Park,

Scheme 54 PU4, Indore-452 010, M.P., India, Phone: (+91) 731 42 89 086 E-mail: business@enkingint.org, Website: www.enkingint.org Notice to the Shareholders of Extra-Ordinary

General Meeting ('EGM')

Notice is hereby given that the 01" Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the members of EKI Energy Services Limited ('the Company') will be held on Monday, August 14, 2023 at 11.30 A.M. (IST) through two-way Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("CA, 2013") read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020. General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the EGM is being conducted through VC/OAVM facility, without physical presence of the Members of the Company.

The Notice of the EGM for the Financial year 2023-2024 which includes the process and manner of attending the EGM through VC and e-voting, were sent through e-mail on July 22, 2023 to all the Members whose e-mail address are registered with the Depository Participants/Company's RTA. The Notice of EGM is also available on Company's website at www.enkingint.org, website of BSE Limited at www.bseindia.com and on CDSL website at www.evotingindia.com. In compliance with the provision of section 108 of CA, 2013, read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide to the Members the facility to exercise their right to vote prior to the EGM and during the EGM by electronic means on the businesses specified in the Notice. The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting, participation in EGM through VC and e-voting during EGM. Remote e-voting will commence on August 11, 2023 at 09.00 A.M. and will end on August 13, 2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting will not be allowed beyond its end time. The Member exercising to vote through remote e-voting can attend the EGM but will not be allowed to vote again during the EGM. Only the Members who have not cast their votes through remote e-voting may cast their votes during the EGM by attending the EGM through VC. Any person, who becomes a member after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date: August 07, 2023 may obtain the login details by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. A person whose name is recorded in the Registers of Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the EGM.

In case of queries or issue regarding e-voting or attending Meeting through VC, please contact on Toll Free No.: 022-23058542/ 43 or send request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL officials Mr. Rakesh Dalvi at designated email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or write to Ms. Itisha Sahu, Company Secretary at cs@enkingint.org.

For EKI Energy Services Limited

Place: Indore Date: 23.07.2023 Manish Kumar Dabkara Managing Director

**GABRIEL** Gabriel India Limited

CIN: L34101PN1961PLC015735 Regd. Office: 29th Milestone, Pune-Nashik Highway, Village Kuruli, Tal. Khed, Pune - 410501.

Ph. No. +91 (2135) 670161, Fax No. +91 (2135) 610796 Email Id: secretarial@gabriel.co.in, Website: https://www.anandgroupindia.com/gabrielIndia/

NOTICE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING AND E VOTING INFORMATION n continuation to the Notice published in the newspaper on July 21, 2023, members may note ollowing in terms of Section 108 and the other applicable provisions of the Act, read with Rule 20 of

he Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of

he Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), Listing Regulations: ) The Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 along with AGM Notice has been sent only through electronic mode (by e-mail) on Saturday, July 22, 2023 to all those members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participant(s) ('DP'). The requirement of sending the physical copy of the AGM Notice and the

- Annual Report to the members have been dispensed with the MCA Circular/s and SEBI Circular, The Company is providing to all its members the facility to exercise their vote by electronic means ('e-voting') on the business set forth in the AGM Notice. The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ('KFintech'), Registrar and Share Transfer Agent for providing e-voting (remote and at the e- AGM) facility to its members and conducting the e-AGM through
- ) The Board has appointed Ms. Savita Jyoti, Practicing Company Secretaries (Membership No 3738) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The remote e-voting period commences on Friday, August 11, 2023, at 09:00 a.m. and ends on Sunday, August 13, 2023, at 05:00 p.m. (IST). Remote e-voting shall not be
- allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Sunday, August 13, 2023. Electronic Voting Event Number: 7426

4) All the members are informed that:

- . A person whose name is recorded in the Register of Members and Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut- Off date i.e., Monday, August 07, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e voting, attending the 61st AGM through VC/OAVM and e-voting during the 61st AGM.
- Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cutoff Date i.e., Monday, 07 August, 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting @Kfintech.com. In case of any guery and/or grievance, in respect of any of the above matters, members may
- contact Mr. S.V. Raju, Deputy Vice President, KFin Technologies Limited, (Unit: Gabriel India Limited), Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032 or at einward.ris@kfintech.com or call on 1800-309-4001 (toll free) for any further clarifications.

The Notice of 61st AGM will also be made available on the Company's website at https:// www.anandgroupindia.com/gabrielindia/ and can be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The same are also available on the website of KFintech a https://evoting.kfintech.com/.

For Gabriel India Limited

Place: Pune Dated: July 23, 2023



Nilesh Jain Company Secretary

DCM Nouvelle Limited NOUVELLE CIN: L17309DL2016PLC307204

Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008 Tel: 011-45013348 | Email Id: info@dcmnvl.com

(In ₹ in lakhs except as stated otherwise)

(₹ in lakhs except as stated otherwise)

(Chairperson and Director)

Quarter Ended

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Quarter Ended Year Ended 30/06/2023 31/03/2023 30/06/2022 31/03/2023 Particulars (Un-Audited) (Audited) (Un-Audited) (Audited) 23,948 25,714 87,024 Total income from Operations 25,788 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) 3,192 603 2,117 Net Profit/ (Loss) for the period before tax 1,823 (after exceptional &/ or extraordinary items) (87) 309 3,192 Net Profit/ (Loss) for the period after tax 2,371 1,166 (after exceptional and extraordinary items) 113 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income 113 2,371 1,179 Paid up equity share capital 1,868 (face Value of ₹10/- each ) 1,868 1,868 1,868 30,020 Other Equity Earnings per share (of ₹ each) (for continuing & discontinued operations) -Basic & diluted (₹) (0.48)0.60 12.69 6.24

SEBI (LODR) 2015:

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchnages under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on the Company's website: (www.dcmnvl.com) and websites of Bombay Stock Exchnage (www.bseindia.com) and National Stock Exchnage of India Limited. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation regulation 47(1)(b) of

(Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) 87,033 Total income from Operations 25,791 23,951 25,713

30/06/2023 31/03/2023 30/06/2022 31/03/2023 **Particulars** 2.378 Profit before tax (before exceptional items) 691 3,225 Profit before tax (after exceptional items) 397 3,225 2,084 1,427 Profit/Loss for the period 201 2,404 The unaudited standalone financial results of the Company for the guarter ended 30th June 2023, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at

their respective meetings held on 21st July 2023. The Statutory auditors have carried out a limited review of the unaudited standalone financial results of the Company for the quarter ended 30th June 2023.

The Financial Results results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder. By order of the Board of Directors

DCM Nouvelle Limited Dr. Meenakshi Nayar

**TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED** (formerly Titagarh Wagons Limited) CIN: L27320WB1997PLC084819

Registered Office: 756, Anandapur, E M Bypass, Kolkata - 700107 Tel: 033-4019 0800, Fax: 033-4019 0823, E-mail: corp@titagarh.in, Website: www.titagarh.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Date: 23.07.2023 Place: New Delhi

		STANDALONE					CONSO	LIDATED	(Rs. In lakhs)
	Particulars	To the second se			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	91,075.87	97,421.55	43,370.62	2,78,052.90	91,075.87	97,421.55	43,185.68	2,77,959.04
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	9,005.09	7,517.15	2,913.21	20,504.76	8,425.77	7,015.94	2,820.61	19,009.70
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	9,005.09	7,517.15	2,913.21	15,877.21	8,425.77	7,015.94	2,820.61	19,009.70
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	6,757.19	5,300.74	2,301.70	10,336.64	6,177.75	4,823.65	(6.46)	12,571.63
5	Total Comprehensive Income for the period	6,859.81	5,397.07	2,150.53	9,316.52	6,289.35	4,795.93	(224.75)	11,571.93
6	Equity Share Capital	2,391.42	2,391.42	2,391.42	2,391.42	2,391.42	2,391.42	2,391.42	2,391.42
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				93,900.81				93,963.75
8	Earnings Per Share (EPS) (Face value of Rs. 2/- each)								
	Basic (*not annualised)	5.65	4.43	1.92	8.64	5.17	4.01	1.96	10.89
	Diluted (*not annualised)	5.65	4.43	1.92	8.64	5.17	4.01	1.96	10.89

1 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 21st July 2023

2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the guarter ended on 30th June, 2023 are available on the Stock Exchange websites: www.nseindia.com and www.bseindia.com; and on the Company's website: www.titagarh.in

Place: Kolkata Date: 22nd July, 2023 For and on behalf of Board of Directors Umesh Chowdhary Vice Chairman and Managing Director



# **KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED** CIN - L65110MH1985PLC038137

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) - 400 051 Tel.: +91-22-61660001 Fax: +91 22 6713 2403

Website: www.kotak.com E-mail: KotakBank.Secretarial@kotak.com

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2023

₹ in crore

						₹ In croi	
		STANDALONE		CONSOLIDATED			
Particulars	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023 (Audited)	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022 (Unaudited)	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2023 (Unaudited)	Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023 (Audited)	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022 (Unaudited)	
Total income from operations (net)	13,183.26	41,333.90	8,454.52	20,723.91	68,142.03	11,569.09	
Net Profit / (Loss) before tax (before extraordinary items)	4,585.26	14,390.99	2,759.67	5,586.43	19,646.18	3,685.90	
Net Profit / (Loss) before tax (after extraordinary items)	4,585.26	14,390.99	2,759.67	5,586.43	19,646.18	3,685.90	
Net Profit / (Loss) after tax (before extraordinary items)	3,452.30	10,939.30	2,071.15	4,150.19	14,925.01	2,755.39	
Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items)	3,452.30	10,939.30	2,071.15	4,150.19	14,925.01	2,755.39	
Paid up Equity Share Capital	993.61	993.28	992.72	993.61	993.28	992.72	
Reserves (excluding Revaluation Reserves and Minority Interest)	81,966.67**	81,966.67**	70,964.14*	110,760.81**	110,760.81**	95,641.70*	
Basic Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised except for year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023)	17.38	54.89	10.43	20.89	74.96	13.88	
Diluted Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised)	17.38	54.87	10.43	20.89	74.94	13.88	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	_		<u> </u>		
Securities Premium Account	25,083.24	24,983.93	24,807.92				
Net worth (Refer note 3)	86,434.93	82,794.81	74,058.50				
Outstanding debt	20,378.16	23,416.27	15,389.90				
Outstanding redeemable preference shares	NA	NA	NA				
Debt Equity Ratio (Refer Note 3)	0.23	0.28	0.21				

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

As on 31st March 2022

\*\* As on 31st March 2023

Mumbai, 22<sup>nd</sup> July, 2023

Regulations, 2015. The full format of aforesaid Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on website of the Bank https://www.kotak.com/en/investor-relations/financial-results.html?source=website. 2. As Ind AS is not applicable to Banking companies, total Comprehensive Income and other comprehensive income is not applicable.

3. Information as required pursuant to Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

Methodology for computation of the rations is, as follows **Debt-Equity ratio** Represents the ratio of Borrowings / Sum of Capital and Reserves and Surplus

Networth Calculated as per the Master Circular - Exposure Norms issued by the RBI. 4. Capital Redemption Reserve and Debenture Redemption Reserve is not applicable to the Bank.

5. There has been no change to significant accounting policies during the quarter ended 30th June, 2023 as compared to those followed for the year ended 31st March, 2023.

By Order of the Board of Directors For Kotak Mahindra Bank Limited

**Dipak Gupta** Joint Managing Director

New Delhi

#### अपराध/हादसा

# करंट लगने से युआईटी कर्मचारी की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में खेत पर कुए की मोटर स्टार्ट करते समय करंट लगने से युआईटी कर्मचारी की अकाल मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार धन्ना (53) पुत्र अमरा गमेती निवासी सेठजी का कुण्डाल फला महुडिया कला जो नगर विकास प्रन्यास में सचिव कार्यालय में कर्मचारी था। शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे खेत पर मवेशियों को पानी पिलाने और खेत पर लगी फसल की रखवाली के लिए गया। मोटर चालू करने के दौरान करंट लगा जिससे वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। परिजनों ने देखा तो तुरंत लकड़ी से हटाया और से अचेतावस्था में एमबी चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई गंगाराम ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

### सर्पदंश से किशोरी की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | मध्यप्रदेश के भँवराना जिले में सांप काटने से एक किशोरी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सलीना उर्फ काजल (16) पुत्री गणपत नायक निवासी भंवरासा एमपी रात्रि में सोते समय अलसुबह करीब 3 बजे सांप ने काट लिया। उसे अचेतावस्था में एमबी चिकित्सालय लाए, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी ने श्व का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप

## हाइड्रोलिक मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के समीप डबोक थाना क्षेत्र में हाई ड्रोलिक मशीन की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार श्रीलाल (44) पुत्र पूराजी डांगी निवासी महाराज की खेडी शुक्रवार को जीएसआर गुडली फैक्ट्री के पास बिजली विभाग के ठेकेदार के पास काम करते समय 11 बजे बिजली का पोल लगा रहे थे। उसी दौरान हाइड़ोलिक मशीन के चालक द्वारा गफलत लापरवाहीपूर्वक चलाकर चपेट में ले लिया, जिससे श्रीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल अवस्था में एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया

# अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से चालक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रामाराम (38) पुत्र सवाराम देवासी निवासी भारुंदा सुमेरपुर अपने रिश्तेदार भावाराम (36) पुत्र हेमा देवासी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पाली से कुराबड़ जाते रूबा हनुमान मंदिर के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायल अवस्था में एमबी चिकित्सालय लाए जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

### युवक पर चाकू से हमला करने में एक गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने एक युवक पर घर में घुसकर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भँवरलाल पुत्र गणेश लाल लौहार निवासी अमल का काँटा सूरजपोल ने मामला दर्ज करवाया कि 27 अप्रैल को रात्रि को उसके मेन गेट पर ईंटें मारने की आवाज पर वह बाहर निकलकर देखा तो गेट के बाहर चेतन सालवी, मुकेश सालवी, अनिल निवासी अमल का काटा खैरादीवाडा व अन्य के साथ शराब ये धुत थे। इन लोगों ने कमलेश के लिएस पूछा तो उसने कहा कि वह सो रहा है तो ये लोग घर में घुस गए कमलेश को जान से मारने की नीयत से चाक से हमला कर दिया। कमलेश के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य आए तो ये सभी भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में रमेश पुत्र भैरूलाल गमेती निवासी सलार ओगणा हाल खैरादीवाड़ा सूरजपोल को गिरफ्तार किया।

# हरियाली अमावस्या के मेले में वृद्धा के गले से चैन चोरी

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ हरियाली अमावस्या मेले में गई उसकी मां के गले से सोने की चेन चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार राकेश चोधरी पुत्र दौलाराम चौधरी निवासी नवजीवन होटल सूरजपोल ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी माता सुखियाबाई 18 जुलाई को हरियाली अमावस्या के मेले में गई थी, जहां पर अज्ञात बदमाश ने उसकी मां के गले से सोने की चैन चोरी कर ली। जिसका वजन डेढ से दो के बीच तोला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

# निवेश के नाम पर ७.५० लाख रूपए हड़पे

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक के खिलाफ उससे 7.50 लाख रूपए का निवेश करवाकर पैसा हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कुलदीपसिंह पुत्र दौलतसिंह चौहान निवासी वारियो की पोल जगदीश चौक रोड ने अजय पत्र मदन कमार डोडेजा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि अजय पूर्व मे हिन्दुस्तान जिंक जावरमाइंस मे काम करता था। उसका परिचित होने के कारण अजय डोडेजा उसके पास आया और उसने कहा वह माइंस के ठेके दिलवाने को काम करता है। उसे निवेश करने के लिए कहा कि अच्छा लाभांश मिलेगा। जिस पीड़ित ने 1 लाख रूपए का निवेश किया, जिस पर उसने 35 हजर रूपए लाभांश सहित पुन: दिए। साथ ही बड़ी राशी निवेश करने पर अच्छा लाभांश दिलवाने का आश्वासन दिया। उसे अपने साथ नागोर मे देह गाव मे साईड दिखाने ले गया, जहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था। इस तरह से उससे झांसा देकर 7.50 लख रूपए का निवेश करवा दिया। बाद में अजय ने बात करना बंद कर दिया। इस पर वह उसके घर पर गया तो वहां पर उसके साथ अभद्रता करते हुए पैसा देने से इंकार कर दिया।





**उदयपुर।** शहर में शनिवार को भी झमाझम बारिश का दौर चला। दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई तो रात को तूफानी हवाओं व तेज बिजलियों के साथ बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। कई जगह बैनर-होर्डिंग उड़ गए तो कहीं-कहीं पर पेड़ों की टहनियां टूट कर गिर गई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद रिमझिम का दौर देर रात तक जारी था। बारिश की वजह से शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई जो रात तक बहाल नहीं हो सकी व रह-रह कर आती-जाती रही।

# हजारों का पैट्रोल-डीजल लेकर पिस्तील दिखाकर भागने वाले बदमाश पकड़े

# आरोपियों ने कई वारदातें करना स्वीकारी

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक पैट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन ने एक कार सवार युवकों के खिलाफ 17 हजार रूपए का डीजल व पैट्रोल लेकर पिस्तौल दिखाकर बिना भुगतान किए ही भागने में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकरी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह झाला निवासी झालो कि भागल रूनडेडा ने मामला दर्ज करवाया कि वह पावर हाउस के पास जिंक स्मेल्टर में एक पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल डीजल भरने का कार्य करता है। वह 19 जुलाई को भी अपनी ड्यूटी कर रहा था उसी दौरान समय रात को 12 बजे एक कार पेट्रोल पम्प पर आई। इसमें कुल 3 व्यक्ति थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी एल एन टी चल रही है, जिसमें डीजल समाप्त हो गया है। अत: उसके 149.72 लीटर डीजल भरा, जिसकी राशी 14 हजार 100 रूपए बना और कार में 22.94 लीटर पेट्रोल भरा, जिसकी राशी 2500 रूपए हुइ। डीजल व पैट्रोल भरने के बाद जब आरोपियों से पैसा मांगा तो आरोपियों ने उसे पिस्टल दिखाते हुए पेट्रोल व डीजल के पैसे ना देकर कार लेकर भाग गए। इस पर उसने अपने साथी कैलाश

में महिला की मौत.

पति व बेटी घायल



औदिच्य को बुलाया और सेठ को फोन किया। इसके बार पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई पर्वत सिंह, हैड कांस्टेबल लालसिंह, कांस्टेबल रामस्वरूप, शंकरलाल की टीम ने नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस टीम ने वारदात में प्रयुक्त गाडी के हुलिये के आधार पर महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी बिछावेडा सगावतो के घर डबोक, राजेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह निवासी बिछावेडा हिरावत डबोक और अर्जुन सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी बिछावेडा सगावतो के घर डबोक को पकडा। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना स्वीकार किया।

समय अल्टो कार जिसके ओरिजनल नम्बर

पर एक गलत नम्बर का स्टीकर चिपकाते है और पहले से सुनसान क्षेत्र में चिन्हित पेट्रोल पंप पर देर रात को जाते। जहां पंप के कर्मचारी को अपने यहां पर एल एण्ड टी चलने या अपने ट्रेलर मे डीजल खत्म हो जाना बताकर अपने साथ लाये हुए प्लास्टिक के बडे ड्रमों मे डिजल भरवा देते। साथ ही कार में भी पेट्रोल भरवा देते एंव बिना रूपये दिये ही पेट्रोल पंप से भाग

### यहां-यहां पर स्वीकारी वारदातें

आरोपियों ने सूरजपोल, वल्लभनगर, बारापाल टीडी, सीमेंट फेक्ट्री डबोक के साथ-साथ मंगलवाड में स्थित पेट्रोल पंप कार पर गलत नम्बरों का स्टीकर पर भी इसी प्रकार की वारदातें करना लगाकर करते हैं वारदात : थानाधिकारी स्वीकार किया है। आरोपियों से पूछताछ हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपी रात के जारी है जिनसे और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में अपने भाई के साथ उदयपुर में रहकर बीएसटीसी कर रही एक किशोरी की संदिग्धावस्था में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मोनिका (17) पुत्र दल्ला मीणा निवासी गडावण कांकण बावलवाड़ा जो अपने बड़े भाई अभिषेक के साथ उदयपुर में टेकरी पर एक कमरा किराए लेकर बीएसटीसी कर रही थी। यह शुक्रवार शाम को सात बजे अपने भाई के साथ बीएसटीसी कर अपने घर पर आई थी। कमरे पर आकर कपड़े बदलने के बाद उसे चक्कर आ गए और वह लेट गई। उसे उसका भाई चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बीएसटीसी कर रही किशोरी की संदिग्ध मौत

#### Tara Sansthan, Udaipur, Rajasthan No. TS/OE/TN/2023-24/11

Notice Inviting for Re-Tendering (Tender No. 0610/23-24) Tara Sansthan, Udaipur invites the BID No. 0610/23-24, as a part of Re Tendering, fro

No.	Name of Equipment	For Hospital Unit	Qty.
	Ophthalmic Microscope	Udaipur, Rajasthan	1
	Ophthalmic Microscope	Mumbai	1
	Auto-Refractometer	Udaipur, Rajasthan	1
	Auto-Refractometer	Mumbai	1
	A Scan Machine	Udaipur, Rajasthan	1
	PHACO Emulsification Machine	Faridabad, Haryana	1

313002, Rajasthan. For any query contact at (+91) 7976830848 bet een 10 A.M to 4 P.N BID forms are available from 24.07.2023 till 27.07.2023 (10 A.M. to 4 P.M.)

By Orde Secretary, Tara Sanstl

# पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L24211RJ1946PLC000469

**रजि. कार्यालय**ः उदयसागर रोड, उदयपुर, राजस्थान–313001 **कॉर्पोरेट कार्यालय :** 5वां तल , विपुल स्क्वायर, बी-ब्लॉक, सुशांत लोक फेज− I, गुरुग्राम, हरियाणा– 122 009

ईमेल—आईडी : investor@piind.com, वेबसाइट : www.piindustries.com

# ऑडियो-विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयं

ध्यान दें कि पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 76वीं वार्षिक बैठक ('ई–एजीएम') **गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 को सुबह 10:30 बजे (आईएसटी)** वीडियो ŏॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')∕अन्य ऑडियो–विजुअल ('ओएवीएम<sup>'</sup>) के माध्यम से आयोजित की जाएगी 8 दिसंबर, 2022 को जारी एमसीए सर्कुलर और इस संबंध में 05 जनवरी, 2023 को जारी सेबी नर्कुलर और अन्य संबंधित सर्कुलर के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों व प्रनुपालन में आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, ई–एजीएम के नोटिस में नेर्घारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 76वीं ई—एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए कीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल ाते कंपनी / रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के साथ पंजीकत हैं अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लेमिटेड, ('केफिन') / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी जो स्पष्ट रूप रं गौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं।

ोयरधारक ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 18 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 5.50 के अंतिम लागांश की सिफारिश की है। अंतिम लागांश के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि 11 अगस्त, 2023 है। अंतिम लाभांश, आगामी ई—एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, 15 सितंबर, 2023 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा। लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गएगा. जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अपडेट किए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चैक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ागतान तिथि पर सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी . जहां शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं) और कंपनी के आरटीए (जहां शेयर भौतिक मोड ां रखे जाते हैं) के साथ अपने केवाईसी को अपडेट करें।

सदस्यों की सुविधा के लिए ई–एजीएम की सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध रुराई जाएगी<sup>ः</sup>

1. कंपनी की वेबसाइट : https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Annual-General-Meeting

. स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट : यानी बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> पर और शनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर

. केफिन वेबसाइट : <u>https://evoting.kfintech.com/</u>

—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका : त्रंपनी अपने सभी सदस्यों को ई–एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ई-एजीएम ('ई-वोटिंग') में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सविधा पदान कर रही है। ई-एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया ई–एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है।

#### इलेक्टॉनिक रूप से लामांश प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण सहित केवाईसी पंजीकृत करने का तरीका, यदि एजीएम में घोषित किया गया हो :

**भौतिक होल्डिंग** भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता और/या बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पंजीकरण य अदातन करने के लिए पैन कार्ड की खपमाणित पति और फॉर्म में निर्धारित ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित **फॉर्म** आईएसआर —1 जमा करें :

> क) पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन; ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड या भौतिक उपकरण के माध्यम से सीधे अपने खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण या उनके पते में परिवर्तन;

ग) वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस और अन्य संचार सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार प्राप्त करने के लिए ई—मेल पता। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट

https://www.piindustries.com/investor-relations/sh-ce/Forms पर और केफिन की वेबसाइट :

https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\_download hrd. पर उपलब्ध है। सदस्यों के पास केफिन की किसी भी शाखा वेधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर –1 जमा करने का विकल्प है, जिसका विवरण https://www.kfintech.com/contact-us/ पर उपलब्ध है या https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx# लिंक पर जाकर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ई–हस्ताक्षरित फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या भौतिक फॉर्म निम्नलिखित पते पर डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इकाई : पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 वेत्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत — 500 032

अभौतिकीकृत

देनांक : 22 जुलाई, 2023

डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपें (डीपी) के साथ अपने उपरोक्त विवरण अपडेट करें। किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे

einward.ris@kfintech.com (केफिन वेबसाइट) पर लिखें या सश्री शोभा आनंद र shobha.anand@kfintech.com पर संपर्क करें या केफिन के टोल फ्री नंबर 1–800–309–4001 ार कॉल करें। सदस्य कंपनी को <u>investor@piind.com.</u> पर एक ईमेल भी लिख सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है

और समय—समय पर जारी किये गये एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए सोनल तिवारी

कंपनी सचिव

एम.नं. ए16638

# महिला के खिलाफ झूठे मामले में फंसाने की दो बाईकों की टक्कर धमकी देकर 30 लाख मांगने का मामला दर्ज

उदयपुर। जिले के झाडोल थाना क्षेत्र में दो बाईकों की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति व बेटी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार मांगुड़ी (18) पत्नी भैरूलाल लकुम्बरा निवासी रूपए दे चुका है। काचला झाडोल अपने पति भैरूलाल व बेटी रेखा के साथ 20 जुलाई को अपने पीहर लाखागुड़ा जा रही थी। इसी

मांगुड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान मांगुड़ी की मौत हो। गई। हैड कांस्टेबल पूनमचंद ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाया शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

दौरान गोदाणा के पास पीछे से

एक अन्य बाईक ने टक्कर मार

दी. जिससे तीनों घायल हो

**उदयपुर. नगर संवाददाता** शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक महिला और अन्य के खिलाफ उससे मित्रता कर उसके फोटो व विडियों को एडिट कर उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने का मामला दर्ज करवाया हैं। पीडित इस महिला को लाखों पुलिस के अनुसार भगवत सिंह पुत्र भवान

सिंह राव निवासी रकमपुरा युआईटी फ्लैट ने की। मामला दर्ज करवाया कि वह वर्ष 2015-16 से राधे कृष्ण गेस्ट हाउस अहमदाबाद में नौकरी करता था। इस होटल पर एक महिला का राधे कृष्णा होटल पर अन्य ग्राहको व व्यक्तियो के साथ नियमित आना-जाना रहता था। उस दौरान उसकी इस महिला से पहचान हो गई। बाद में दोनों में प्यार हो गया। उस दौरान सोमा सरकार के पास रहने के लिये कोई जगह न होने के कारण उससे कहा तो उसने उसे एक मकान अहमदाबाद में किराये पर दिलाया। पीडित ने बताया कि उसने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद उस पुत्री के नाम से पीड़ित को ब्लेकमेल करती रही और लगातार पैसा ले रही थी। अन्य प्रोगाम व पारिवारिक प्रोग्राम मे बुलाती एंव अन्य उसके परिवार एंव बच्चो के साथ उसके मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

व्यक्तिगत पारिवारिक फोटो ले लिए थे। इस महिला सोमा सरकार अपने साथियों के साथ मिलकर उसके फोटो व अश्लील वीडियो बना लिए व अपने साथियों के माध्यम से ब्लेकमेल कर पैसों की मांग कर रही है। दो माह पूर्व सोमा सरकार दो-तीन परूषों के साथ आई और उसकी पत्नी को धमकाते हुए पीडित को बलात्कार के प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग

पीडित ने बताया कि दो माह पूर्व इस महिला द्वारा सोशल मीडिया पर दो-तीन फर्जी आईडी तन् राव व बिट् राव व एक सोमा सरकार नाम की आईडी से फेसबुक एवं इंस्टाग्राम एवं वॉटसअपए स्टोरी के जरिए समाज के ग्रुप में विडियों व फोटो वायरल कर दिए। यह महिला उसे फोन कर 30 लाख रूपए मांग रही है और पैसा नहीं देने पर उसके व्यक्तिगत फोटो दोबारा न्यूज चैनल व यू ट्यूब पर वायरल करने की धमको दी, जिस पर उसने 51000 रूपए, 90 हजार रूपए , 1.41 लाख रूपए ऑन लाईन ट्रांसफर किए और 4.84 लाख रूपए वह अहमदाबाद जाकर नकद देकर आय है। इसके बाद भी पैसों की मांग की जा रही है। पुलिस ने

# उदयपुर में हाई लेवल की गोपनीय बैठक, विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे

# ना सीआईडी और ना पार्टी के नेता किसी को भी जाने की इजाजत नहीं

विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को उदयपुर आए और उदयपुर में एक सेवन स्टार होटल में किसी हाई लेवल आए है इस बैठक कौन-कौन आया है पर है यह किसी को पता नहीं है। इस लिए रवाना हो जाएंगे।

उदयपुर. नगर संवाददाता | केन्द्रीय यह किसी को पता नहीं है।

जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार सुबह उदयपुर आए और एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं बैठक में भाग लिया, पर यह बैठक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद से किस विषय पर है यह किसी को पता सेवन स्टार होटल ताज अरावली चले नहीं है। इस बैठक में किसी को भी गए। वहां पर कोई हाईलेवल बैठक अलाउ नहीं किया गया है। इसमें ना तो का आयोजन है, जिसमें भाग लेने के मीडिया और ना सीआईडी और ना ही संघ के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाजपा नेता। बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी उदयपुर थे, जिन्हें रिसेप्शन से ही वापस भेज बैठक में संघ के राष्ट्रीय स्तर के आए है और कुछ देशी-विदेशी मेहमान दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पदाधिकारी व कुछ विदेशी मेहमान भी भी आए है पर यह बैठक किसी मुद्दे रविवार सुबह उदयपुर से पुन: दिल्ली के

होटल में भाजपा का कोई नेता और सीआईडी का कोई भी अधिकारी नहीं गया है। एस जयशंकर के लिए पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है पर वह भी बाहर ही है।

मिटिंग हॉल में वे ही अलाउ है, जिन्हें बुलाया गया था। एस जयशंकर के साथ-साथ भाजपा शहर प्रभारी बंशीलाल खटीक भी इस होटल में गए

